



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16--अप्रैल 22, 2005 (चैत्र 26, 1927)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16--APRIL 22, 2005 (CHAITRA 26, 1927)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं	459	भाग II--खण्ड 3 उपखण्ड--(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संचालित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के द्वितीय प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	375	भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, निर्यक्त और महालेखा परीक्षक, संच लोकर सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बन्ध और अन्य न्यायिक कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	383
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	521	भाग III--खण्ड 2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	217
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड 3--मृदा आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रस्ताव द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 1 क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निष्ठाओं द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1337
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर सरकार सचिवों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निष्ठाओं द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	111
भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संचालित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संचालित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

प्रकाशित करने की तिथि

4-21 GI/2005

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	459	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	..
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	375	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	..
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	383
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	521	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	217
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations	..	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1337
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	..	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	111
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	..	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	..		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION I]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2005

सं० 1/3/2004-रुमेटो—सामान्य सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय का दिनांक 16 मार्च, 2004 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था। डॉ० एम० एस० रामचन्द्रन, अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सेवा निवृत्त होने के परिणामस्वरूप शासी निकाय से उनका सदस्यता समाप्त हो जाती है। श्री अशोक के० पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अब उनके स्थान पर शासी निकाय की शेष अवधि के लिए सी०एस०आई०आर० की शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव

बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है :—

कपास उपजकर्ता

सदस्य

1. श्री गुनवन्ते मणीलाल गज्जर,
6, गायत्री अपार्टमेंट, मोहनमार्क सोसाइटी,
गोधनवादी, तेकारा, कनकरिया,
अहमदाबाद-380028,
गुजरात
2. श्री किरीरीलाल एफ० झुनझुनवाला,
45, मेकर चैम्बर्स II, 223, नरोमन पाइंट,
मुम्बई-400021

जिनिंग एवं प्रेसिप क्षेत्र

सदस्य

3. श्री घन्ता कामेश्वर राव,
डो० नं० 6-20-14, प्रथम तल,
9/1 अहमदेलफेट, गुंटूर-522002

2. कपास सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 6-2-2004 की अधिसूचना सं० 1/5/2003-सीटी-2 ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

तह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुदृष्ट राय, संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2005

सं० 1/5/2003-सीटी-2—दिनांक 27-07-2004 एवं 10-02-2005 के साथ पठित दिनांक 6-2-2004 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित कपास सलाहकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2005

सं० एफ० 14-3/2004-ई०ई०-12—सर्व शिक्षा अभियान के मूल दस्तावेज के अध्याय-V (विशेष ध्यान दिये जाने वाले समूहों की कवरेज) के पैरा 5.2 ("विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा") में निम्नवत् उल्लेख किया गया है :—

“पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रैर-संगठनों के सहयोग से कार्यक्रमों की प्रभावी आयोजना तथा प्रबन्धन के लिए राज्य, जिला स्तरों पर विशेषज्ञ दल गठित किए जाने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष जरूरतों वाले बच्चों की मार्गदर्शन, तकनीकी तथा शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ दल गठित किये जाने चाहिए”।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एतद्द्वारा राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल का निम्नवत् गठन किया जाता है :—

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग अध्यक्ष
- क. सदस्य, पदेन
2. संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो आईईडी का काम कर रहे हों सदस्य
3. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में प्रारंभिक शिक्षा का काम देखने वाले संयुक्त सचिव —वही—
4. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा का काम देखने वाले निदेशक/उप सचिव —वही—
5. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय —वही—
6. अध्यक्ष, नेशनल ट्रस्ट फार वेल्फेयर ऑफ पर्मनैट विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी एण्ड मैनटल रिटारडेशन अथवा उनका नामित व्यक्ति —वही—
7. निदेशक, नीचा, अथवा उनका नामित व्यक्ति —वही—
8. अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् —वही—
9. परियोजना निदेशक, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (डीईपी-एसएसए), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय —वही—
10. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् —वही—
11. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान —वही—
12. अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद अथवा उनका नामित सदस्य —वही—
13. निदेशक, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता अथवा उनका नामित सदस्य —वही—
14. निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून अथवा उनका नामित व्यक्ति —वही—
15. निदेशक, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई अथवा उनका नामित व्यक्ति —वही—
16. निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद, अथवा उनका नामित व्यक्ति —वही—
17. सीएमडी, एएलआईएमसीओ, कानपुर, अथवा उनका नामित व्यक्ति —वही—
18. मुख्य सलाहकार, मिडिल कार्य, सर्व शिक्षा अभियान के लिए टीएसजी, एडसिल —वही—
19. वरिष्ठ सलाहकार, समवेशी शिक्षा के प्रसारण, सर्व शिक्षा अभियान के लिए टीएसजी एडमिन —वही—
- ख. अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य
20. पाँचों क्षेत्रों (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर) में से प्रत्येक क्षेत्र का एक राज्य-प्रतिनिधि —वही—
21. सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों तथा कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिनिधि (जिनमें से दृष्टि/श्रवण/अस्थि/मानसिक विकलांगता संबंधी क्षेत्र से कम से कम एक प्रतिनिधि हो)। —वही—
22. अध्यक्ष, विशेषज्ञ जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् सदस्य-सचिव

3. राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल प्रारंभिक स्तर पर विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के सभी पहलुओं के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा; विशेष रूप से निम्नलिखित संदर्भ में:—

- विशेष जरूरतों वाले बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नीति संबंधी पहलू।
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों के विभिन्न वर्गों की पहचान।
 - सभी प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं में विकलांगों की पहुंच का प्रावधान।
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अच्छी कोटि की सहायता सामग्री की यथासमय आपूर्ति।
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अध्ययन-अभ्यास सामग्री का विकास (उदाहरणार्थ ब्रेल पुस्तकें, वार्तालाप पुस्तकें आदि)
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षकों, विशेषज्ञ शिक्षकों तथा प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विकेन्द्रीकृत संसाधन सहायता का विकास।
 - समावेशी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं/मॉडलों की पहचान तथा प्रसार।
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति समुदाय की जागरूकता बढ़ाना।
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विभागों/एजेंसियों की योजनाओं का संकेन्द्रण।
 - विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा की राज्यवार प्रगति की समीक्षा तथा इसके सुधार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल के नामित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा उनके उत्तराधिकारियों के नामन तक जो भी बाद में हो, तक होगा।
5. राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।
6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को सचिवालयीय सहायता प्रदान करेगी।
7. यदि राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को उपयुक्त लगे तो वह विशिष्ट क्षेत्रों के व्यवहार के लिए उपयुक्त ढंग से उप-दल गठित कर सकता है।
8. राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल के कार्यकलापों तथा सिफारिशों की रिपोर्टें, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारिणी समिति के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन को प्रस्तुत की जाएगी।

मुकुल रावरा, उप सचिव।

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2005

सं० 7-1/2005-यू०-5—संगम ज्ञापन के नियम 2, 3 तथा 13 तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की नियमवली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार प्रो० एण्ड्रे बेटेले को कार्यालय में उनके कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नामित करता है।

डी० के० पालीवाल, उप शिक्षा सलाहकार

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 फरवरी 2005

संकल्प

सं० 10-3/96-आई एम वाई/आर एम के—16-2-2004 के संकल्प सं० 10-3/96-आई एम वाई/आर एम के में आंशिक आशोधन तथा राष्ट्रीय महिला कोष के नियमों एवं विनियमों के नियम 9(1) के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15-2-2007 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो

भी शामिल हो, राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित करती है :—

1. पद्मश्री जया अरुणाचलम के स्थान पर डा० नागोबी राव अध्यक्ष, कामकाजी महिला 100, आर आर मंच 55, भीमसेन गार्डन टावर्न सी एलेन, रोड, मडलापोर, नामपल्ली, चेन्नई-600004 हैदराबाद-500001
2. डा० रानी बंग के स्थान पर श्री रंजन सिंह "सर्व" गढ़ चिरोली, रविराज मारोड़, महाराष्ट्र वी-3-11, प्लिजेंट पार्क, पुणे-13

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. मंत्रीमण्डल सचिव, भारत सरकार
2. प्रधान सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
3. मुख्य सचिव, सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र
4. सचिव वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) नई दिल्ली
5. अपर सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
6. कोष के शासी बोर्ड के सभी सदस्य
7. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव
8. राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास) के निजी सचिव
9. सचिव (महिला एवं बाल विकास) के निजी सचिव
10. संयुक्त सचिव (पी डी डी)
11. वित्तीय सलाहकार (महिला एवं बाल विकास)
12. कार्यकारी निदेशक (महिला राष्ट्रीय कोष)
13. रोकड़ अनुभाग

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को ज्ञा सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

लवलीन कक्कड़
संयुक्त सचिव

संकल्प

सं० 10-3/96-आई एम वाई/आर एम के—राष्ट्रीय महिला कोष के नियमों और विनियमों के नियम 9(1) के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 वर्ष

के लिए तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित करती है :—

1. सचिव, प्रभारी महिला के स्थान पर सचिव एवं बाल विकास, प्रभारी, महिला मिजोरम सरकार, एवं बाल विकास आइजोल-796001 छत्तीसगढ़ सरकार पुराना नर्सिंग होस्टल डी के एस भवन के पीछे रायपुर-492001
2. सचिव, प्रभावी के स्थान पर सचिव प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार खुमान पार्क, इम्फाल-795001

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. मंत्रीमण्डल सचिव, भारत सरकार
2. प्रधान सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
3. मुख्य सचिव, सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र
4. सचिव, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) नई दिल्ली
5. अपर सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
6. कोष के शासी बोर्ड के सभी सदस्य
7. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव
8. राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास) के निजी सचिव
9. सचिव (महिला एवं बाल विकास) के निजी सचिव
10. संयुक्त सचिव (पी डी डी)
11. वित्तीय सलाहकार (महिला एवं बाल विकास)
12. कार्यकारी निदेशक (महिला राष्ट्रीय कोष)
13. रोकड़ अनुभाग

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को ज्ञा सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

लवलीन कक्कड़, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2005

आदेश

सं० हिन्दी/समिति/2004/38/2—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 28-1-2003 के संकल्प सं० हिन्दी/समिति/2001/38/9 के अन्तर्गत गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है।

एम० के० अग्रवाल,
सचिव, रेलवे बोर्ड

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2005

सं० क्यू०-16012/1/2000 ई एस ए (डब्ल्यू ई)—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की नियमावली और विनियमों के नियम 3(1) के अनुसरण में, भारत सरकार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक एतद्वारा अजिंक्या ज्ञानदेव पाटील को उपरोक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है।

एम० के० अग्रवाल,
सचिव, रेलवे बोर्ड

तदनुसार भारत के राजपत्र भाग 1 में प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/1/2000 ई एस ए (डब्ल्यू ई) दिनांक 13 जुलाई, 2004 के साथ पठित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/1/2002 ई एस ए (डब्ल्यू ई) दिनांक 04 दिसम्बर, 2002 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :

मौजूदा प्रविष्टि अर्थात् :-

मेजर जनरल समय राम (सेवानिवृत्त)

“विप्रासना” भवन, संख्या 381,

सैक्टर-5, गुडगांव, (हरियाणा) 122001

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

श्री अजिंक्या ज्ञानदेव पाटील

14, सिद्धार्थ अपार्टमेंट,

आर जी थण्डानी मार्ग,

वर्ली सी फेस, मुंबई-400018

बीना रानी विज, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC &
INDUSTRIAL RESEARCH(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH)

New Delhi, the 31st March 2005

No. 1/3/2004-Cte.—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research was reconstituted for a period of three years with effect from 16th March, 2004. Consequent to the retirement of Dr. M.S. Ramachandran, Chairman, Indian Oil Corporation, he ceased to be the member of Governing Body. Shri Ashok K. Puri, Chairman & Managing Director, Bharat Heavy Electricals Limited has now been nominated in his place as a member of the Governing Body of CSIR for the remaining tenure of the GB.

SUDHIR KUMAR, Joint Secy.

dated 06-02-2004 read with Notifications dated 27-07-2004 & 10-02-2005, with immediate effect :—

COTTON GROWERS

Members

1. Shri Gunvantray Manilal Gajjar,
6, Gaytri Apartment, Mohanpark Society,
Gordhanyadi, Tekara, Kankaria,
Ahmedabad-380028
Gujarat
2. Shri Kishorilal F. Jhunjunwala,
45, Maker Chambers III,
223, Nariman Point, Mumbai-400021.

GINNING & PRESSING SECTOR

3. Shri Ghanta Kameswara Rao
D. No. 6-20-14, 1st Floor,
9/1, Arundelpet, Guntur-522002
2. The Notification No. 1/5/2003-CT-II dated 06-02-2004 regarding reconstitution of the Cotton Advisory Board stands modified to the extent stated above.

ORDER

Ordered that a copy of this Notification be communicated to all concerned.

Ordered also that it be published in the Gazette of India.

SUDRIPTA ROY, Joint Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 28th March 2005

No. 1/5/2003-CT-II.—The following Members are nominated to the Cotton Advisory Board, reconstituted vide Notification of even number

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 7th March 2005

No. F. 14-3/2004-EE. 12.—Para 5.2 [“Education of Children with Special Needs”] of Chapter V (“Coverage of Special Focus Groups”) of the Framework Document of Sarva Shiksha Abhiyan states as under :—

“Resource groups should be constituted at State, District levels to undertake effective planning and management of the programmes in collaboration with PRIs and NGOs. An apex level resource group at the national level to provide guidance, technical and academic support to children with special needs under SSA may be constituted.”

2. In pursuance of the above, a National Resource Group (NRG) is hereby constituted for Education of Children with Special Needs [CWSN] under Sarva Shiksha Abhiyan, as follows :—

- | | |
|---|-------------|
| 1. Secretary, Govt. of India, Ministry of Human Resource Development,
Department of Elementary Education & Literacy | Chairperson |
| A. MEMBERS, EX-OFFICIO | |
| 2. Joint Secretary, Department of Secondary Education, Ministry of
Human Resource Development, dealing with IED | Member |
| 3. Joint Secretaries in the Department of Elementary Education &
Literacy, dealing with Elementary Education | -do- |
| 4. Director/Dy. Secy. in the Department of Elementary Education &
Literacy, dealing with Education of CWSN | -do- |
| 5. Joint Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment | -do- |
| 6. Chairperson, National Trust for Welfare of Persons with Autism,
Cerebral Palsy & Mental Retardation, or his nominee | -do- |
| 7. Director, NIEPA, or his nominee | -do- |
| 8. Head, Deptt. of Elementary Education NCERT | -do- |
| 9. Project Director, Distance Education Programme (DEP-SSA),
IGNOU | -do- |
| 10. Chairperson, National Council for Teacher Education | -do- |
| 11. Chairperson, National Institute of Open Schooling | -do- |
| 12. Chairman, Rehabilitation Council of India or his nominee | -do- |
| 13. Director, National Institute of Orthopaedically Handicapped,
Kolkata, or his nominee | -do- |
| 14. Director, National Institute of Visually Handicapped, Dehradun,
or his nominee | -do- |
| 15. Director, National Institute of Hearing Handicapped, Mumbai, or
his nominee | -do- |
| 16. Director, National Institute of Mentally Handicapped, Hyderabad,
or his nominee | -do- |
| 17. CMD, ALIMCO, Kanpur, or his nominee | -do- |
| 18. Chief Consultant, Civil Works, TSG for SSA, Ed. Cil | -do- |
| 19. Sr. Consultant in-charge of Inclusive Education, TSG for SSA,
Ed. Cil | -do- |

B. MEMBERS TO BE NOMINATED BY THE CHAIRPERSON

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 20. | One State representative from each of the five regions (Northern, Eastern, Western, Southern and North-Eastern) | Member |
| 21. | Seven representatives of NGOs experts and activists working in the area of Education of CWSN (of whom at least one each shall be from the areas of visual/hearing/orthopaedic/mental impairment) | -do- |
| 22. | Head, Department of Education of Groups with Special Needs, NCERT | Member Secretary |

3. NRG will advise the Central and State Governments on all aspects of Education of Children with Special Needs, at the elementary level, with special reference to the following :—

- Policy aspects relating to Elementary Education of Children With Special Needs (CWSN)
- Identification of various categories of CWSN
- Provision of disabled access in all elementary education institutions.
- Timely supply of good quality assistive devices to CWSN of various categories.
- Development of Textbooks and TLM for different categories of CWSN (e.g. braille books, talking books etc.)
- In-service training of elementary teachers, resource teachers and elementary teachers educators, in the context of education of CWSN
- Development of decentralized Resource Support for Education of CWSN
- Identification and dissemination of best practices/models for inclusive education (IE)
- Raising community awareness for Education of CWSN
- Convergence of schemes of various Departments/agencies for Education of CWSN
- Review of State-wise progress of Education of CWSN, and providing necessary guidance for its improvement.

4. Term of nominated members of NRG shall be two years or till nomination of their successors, whichever is later.

5. NRG will meet at least twice a year.

6. Secretarial support to NRG will be provided by NCERT.

7. NRG may constitute such Sub-Groups for dealing with specific areas, as it may deem appropriate.

8. Activities and recommendations of the NRG shall be reported to the Sarva Shiksha Abhiyan National Mission, through the Mission's Executive Committee.

MUKUL RATRA
Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF SECONDARY AND
HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 22nd March 2005

F. No. 7-1/2005-U-5. In exercise of the powers vested under Rules 2, 3 and 13 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, the Government of India, is pleased to nominate Prof. Andre Beteille, as the Chairman of the Indian Council of Social Science Research for a period of three years with effect from the date he takes over charge of office.

D. K. PALIWAL,
Dy. Educational Adviser

(DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT)

New Delhi-110001, the 18th February 2005

RESOLUTION

No. 10-3/96-IMY/RMK.—In pursuance of the provision of Rule 9(I) of Rules and Regulations of Rashtriya Mahila Kosh and in partial modification of the Resolution No. 10-3/96-IMY/RMK dated 16-2-2004 the Government of India nominates the following persons as members of the Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh with effect from

the date of notification till 15-2-2007 or until further order, whichever is earlier :—

- | | | |
|--|------|---|
| 1. Dr. Nagi B. Rao
100, RR Towers,
CA Lane Nampally
Hyderabad-500001. | Vice | Padmashri Jaya
Arunachalam
President, Work-
ing Women's
Forum
55, Bhimasena
Garden Road
Mylapore,
Chennai-600004. |
| 2. Shri Rajan Singh
Raviraj Marod,
B-3-11, Pleasant Park,
Pune-13. | Vice | Dr. Rani Bang,
"Search", Garh
Cheroli,
Maharashtra. |

ORDER

Ordered that a copy of the resolution the commu-
nicated to :

1. Cabinet Secretary, Government of India
2. Principal Secretary, Prime Minister's Office
3. Chief Secretary, All States, UT Governments
4. Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure, New Delhi)
5. Additional Secretary, Banking Division, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi
6. All Members of the Governing Body of the Kosh
7. PS to HRM
8. PS to MOS (WCD)
9. PS to Secretary, (WCD)
10. JS (PDD)
11. FA (WCD)
12. ED (RMK)
13. Cash Section

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

LOVELEEN KACKER
Jt. Secy.

RESOLUTION

No. 10-3/96-IMY/RMK.—In pursuance of the provision of Rule 9(I) Rule and Regulations of Rashtriya Mahila Kosh the Government of India nominates the following persons as members of the

Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh with immediate effect for one year :—

- | | |
|---|---|
| 1. Secretary-in-charge
Woman and Child
Development,
Government of
Chhattisgarh, Old
Nurses Hostel, Bind
DKS Bhawan,
Raipur-492 001 | Vice-Secretary In-charge
woman and Child Deve-
lopment, Government
of Mizoram,
Aizawal-796001 |
| 2. Secretary In-charge
of Social Welfare
Department,
Government of
Manipur, Khuman
Park, Imphal-795001 | Vice-Secretary in-charge
Woman and Child
Development,
Government of
Jharkhand, Ranchi |

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communi-
cated to :—

1. Cabinet Secretary, Government of India.
2. Principal Secretary, Prime Minister's Office.
3. Chief Secretary. All States, UT Govern-
ments.
4. Secretary, Ministry of Finance (Depart-
ment of Expenditure, New Delhi).
5. Additional Secretary, Banking Division,
Department of Economic Affairs, Jeevan
Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi.
6. All Members of the Governing Body of
the Kosh.
7. PS to HRM
8. PS to MOS (WCD)
9. PS to Secretary (WCD)
10. JS (PDD)
11. FA (WCD)
12. ED (RMK)
13. Cash Section

Ordered also that the resolution be published in
the Gazette of India for general information.

LOVELEEN KACKER
Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st March 2005

ORDER

No. Hindi/Samiti/2004/38/2.—Railway Hindi Salahakar Samiti constituted vide Ministry of Railway's (Railway Board) resolution No. Hindi/Samiti/2001/38/9 dated 28-01-2003 is dissolved with immediate effect.

M. K. AGARWAL
Secy. Railway Board

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 6th April 2005

No. Q-16012/1/2000-ESA (WE).—In pursuance of Rule 3(1) of the Rules and Regulations of Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Shri Ajinkya

Dnyandeo Patil as Chairman of the said Board with immediate effect and until further orders.

The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/1/2002-ESA (WE) dated 4th December, 2002 read with Notification No. Q-16012/1/2000-ESA (WE) dated 13th July, 2004 published in the Gazette of India Part-I as amended from time to time.

For existing entry viz :—

“Major General Samay Ram, (Retd.),
“Vippassana”, House No. 381,
Sector-5, Gurgaon (Haryana)-122001.”

The following shall be substituted viz :—

“Shri Ajinkya Dnyandeo Patil,
14, Siddharath Apartment,
R. G. Thandani Marg,
Worli Sea Face, Mumbai-400018.”

BINA RANI VIJ, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन निबंधक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005